



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष 1936 (श0)
(सं0 पटना 3) पटना, बृहस्पतिवार, 1 जनवरी 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद
विद्यापति मार्ग, पटना-800001

अधिसूचना
26 नवम्बर 2014

सं0 1111—श्री सनातन धर्म सभा भवन, पटना सिटी, पटना के सुचारु प्रबंधन हेतु पर्वदीय अधिसूचना ज्ञापांक-2170, दिनांक 19/03/2013 द्वारा अधिनियम की धारा- 32 के तहत एक योजना निरूपित की गई है। उक्त योजना के क्रमांक-1 पर योजना का नाम “श्री सनातन धर्म सभा, पटना सिटी, पटना” तथा न्यास समिति का नाम “श्री सनातन धर्म सभा न्यास समिति, पटना सिटी, पटना” टंकित हो गया है। इसे निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है :-

“श्री सनातन धर्म सभा, पटना सिटी, पटना” के स्थान पर “सनातन धर्म सभा भवन, पटना सिटी” तथा “श्री सनातन धर्म सभा न्यास समिति, पटना सिटी, पटना” के स्थान पर “सनातन धर्म सभा भवन प्रबंधकारिणी समिति, पटना सिटी” प्रतिस्थापित किया जाता है।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 3-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>